

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम
लडापुरा जलकल प्रांगण, झालू रोड, बिजनौर
(जल परीक्षण रिपोर्ट)

सेवा नं:-

प्रधानाचार्य
द हेजलमून स्कूल

चान्दपुर पो० रीनिया ब्लॉक इन्ट्रीर जनपद (बिजनौर)

प्रयोगशाला पत्रिका का सन्दर्भ: 1470

1 जल परीक्षण / 33

दिनांक- 23.05.2023

क्र.सं.	ग्राम/नगर/संकेक्षण	कोट	टी०की० ए०ए० (पी०पी०ए०एम०)	पी० ए०ए०	लंबिमीटर	रसायनिक परीक्षण पी०पी०ए०एम० में							
						क्लोराइड	सम्पूर्ण कठोरता	सल्फेट	आयरन	नाइट्रेट	एल्केनिटी	ईन्डोर्फिया	टिम्पनी
1	द हेजलमून स्कूल	समावेशक	169.5	7.652	0.56	10.95	132	8.86	0.14	8.56	130	0	संतोषजनक

- नोट-
- मानकों के लिये पृष्ठ दो का सन्दर्भ लें।
 - आयरन विश्लेषण हेतु नमूने एरिथ्रिक में भेजे।

प्रतिहस्ताक्षरित


CHEMIST
District Level Water Analysis Laboratory
Bijnor UPJN


जूनियर इंजी०


सहायक अभियन्ता

Physical & Chemical Standard

No.	CHARACTERISTICS	ACCEPTABLE	CAUSEFOR REJECTION
1	Colour (unit on platinum-Cobalt Scale)	5.0	25
2	Taste and Odour	Unobjectionable 7.0 to 8.5	Objectionable <6.5 or >9.2
3	PH	500	1500
4	Total dissolved solids	200	600
5	Total Hardness (as CaCo ₃)	200	1000
6	Chlorides (as Cl)	200	400
7	Sulphate (as So)	1.0	1.5
8	Fluorides (as F)	45	>45
9	Nitrates (as No ₃)	0.1	1.0
10	Iron (as Fe ₃)	.	.
11	Nitrate	200	600
12	Alkalinity	.	.
13	Residual Chlorine	.	.
14	Antonic	.	.
15	Turbidity	.	.
16	Chromium Bacteria	.	.

Instruction & guide less for water sample collection

RESEARCH LABORATORY

U.P. JAL NIGAM BIJNOR

PARTICULARS FOR CHEMICAL ANALYSIS OF WATER SAMPLE

Name of Office.....

Reference letter.....

Name & Designation of Sample Collector.....

Date of Sample Collection.....

Name of Village/Town.....

Code no.....

Block.....

Tehsil.....

District.....

Source.....

Location of source.....

Deep of water level.....

Remarks if any.....

Signature of sample Collector

Note- 1- The Performa be filled up with ball point pen & accompanied with appropriate sample.